

# प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

4 days "Improvement in Police Behaviour"

दिनांक 04-04-2022 से 07-04-2022

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 04-04-2022 से 07-04-2022 तक "Improvement in Police Behaviour" विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कमरा नं 02 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र जाट, अतिरिक्त निदेशक के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 31 प्रतिभागियों जिसमें- 06 पुलिस निरीक्षक, 25 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्री कैलाश चन्द्र जाट, अतिरिक्त निदेशक, आरपीए जयपुर ने पुलिस अधिकारियों के लिये संचार कौशल के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री जी. एल. शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस, (सेवानिवृत्त) ने पुलिस व्यवहार एवं मानवाधिकार के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में सुनील कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए जयपुर कोर्स डायरेक्टर ने प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम की ब्रीफिंग (पुलिस प्रतिक्रिया, टीमों के गठन पर भूमिका निभाने का अभ्यास) के बारे में बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री शिखर प्रजापत, एमजीटी ट्रेनर, जयपुर ने पुलिस कर्मियों में तनाव कम करने के लिए खुश रहने के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री गोविन्द पारीक, अतिरिक्त, निदेशक पीआर, जयपुर ने मीडिया का प्रबंधन और जनमत का निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री धन्ना राम, एडीजे, (सेवानिवृत्त) ने पुलिस और सार्वजनिक छवि: एक न्यायिक परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से बताया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री श्री पृथ्वीपाल सिंह, थानाधिकारी थाना सदर ने बेहतर पुलिस जनसंपर्क के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री हेमन्त नाहटा, एडवोकेट हाई कोर्ट, जयपुर ने पुलिस व्यवहार- अपेक्षा और जमीनी हकीकत, बिना किसी दबाव के मुखर संचार पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री यशपाल यश संस्थापक सह संयोजक ने ओमाश्रे सेवाधाम जयपुर का भ्रमण करवाया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती सुनिता मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने पुलिस अधिकारियों के लिए संचार कौशल के बारे में विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय सत्र में श्री कैलाश चन्द्र जाट, अतिरिक्त निदेशक एवं श्री योगेन्द्र फोजदार, सहायक निदेशक (**SIC**) आरपीए जयपुर ने रोल प्ले, अवलोकन, चर्चा और निष्कर्ष के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री पारिस देशमुख, पुलिस उपायुक्त उत्तर जयपुन ने सामुदायिक पुलिसिंग द्वारा पुलिस व्यवहार में सुधार पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर  
कोर्स निदेशक